

Ref: HMVL/CS/08/2019

August 28, 2019

To,

BSE Limited
P.J. Tower, Dalal Street
MUMBAI - 400 001

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra — Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400 051

Scrip Code: 533217
Trading Symbol: HMVL

Dear Sirs,

Sub: Copies of Newspaper advertisement of Notice of Annual General Meeting

In continuation of our letter dated 22nd August, 2019, with regard to the Notice of Annual General Meeting to be held on 19th September, 2019 and Annual Report of the Company; we are enclosing herewith copies of newspaper advertisement published in "Hindustan Times", "Hindustan" and "Mint" on 28th August, 2019.

This is for your reference and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Hindustan Media Ventures Limited**


(Tridib Barat)
Company Secretary



Encl.: As above

Campaign to teach values to students

HT Correspondent

hreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The three-month-long "Constitution at 70 campaign" in Delhi government schools kick-started on Tuesday with students learning constitutional values to commemorate 70 years of India's Constitution.

Under the campaign, a one-hour long session would be held for students of classes 6 to 9 and of class 11 per week for three weeks. Students appearing for their board exam this year are being exempt from the campaign.

While the focus till September would be on the theme of "Liberty", October and November would focus on "Equality" and "Fraternity" respectively. Students will be taught about these constitutional values through workshops and activities. Podcasts on the values of Liberty, Equality, and Fraternity will also be made available

on the department's which teachers can use understanding and share parents and students.

"The campaign aligned with the week activities. The period for Students Council Social Science for Class and political science class 11 may be used for pose," the Directorate of Education said in a circular.

Between August 27 students will be introduced campaign and taught a constitutional value of They will also undertake exploration activities" and surveys in their far community.

Students will be provided with different situations effort to make them think about their values and processes. They will be asked to describe how when they are not allowed exercise their choice

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

संख्या No.: 2-15/2018-Admn.
केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान
CENTRAL RESEARCH INSTITUTE
कसौली KASAUALI
दिनांक Dated the 06.08.2019

Tel. No. (01792) 273188 & 273105
FAX No. (01792)-223377 & 272018
Website: www.crikasauli.nic.in
E-mail: director-crik-hp@gov.in

ABRIDGED NOTICE

Applications are invited for one post of Veterinary Officer, Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial) in the Pay Band-3, Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 5400/- (Pre-revised) in Central Research Institute, Kasauli, Ministry of Health & Family Welfare. The post is required to be filled by deputation (including short term contract) from Officers of the Central Government or Union territory Administration or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organizations.

For detailed advertisement and proforma of application, interested candidates may visit the official Website of the Institute at www.crikasauli.nic.in

Duly complete applications through proper channel should be submitted to the undersigned within 45 days of publication of this Notice in Employment News.

CENTRAL RESEARCH INSTITUTE,
KASAUALI (H.P.)-173204

(DR. Ajay Kumar Talwar)
DIRECTOR

davp 17132/11/0014/1920

WALK-IN-INTERVIEW

Walk-in-Interview will be held on 16th September 2019 at 11.30 AM in the Institute of Pesticide Formulation Technology (IPFT), Gurugram. select candidates for the position/s of Research Associate (RA) – 4 No. and Senior Research Fellow (SRF) – 2 No. on purely temporary or contract basis in Monitoring of Pesticide Residues in Different Agriculture Produce of Rajasthan (Rajasthan MPR).

For details, interested candidates may visit the Institute's Website www.ipft.gov.in (What's New)

Advt. No.: IPFT/PROJ-RECTT/AUG/2019

DIRECTOR
IPFT, GURUGRAM

davp 02103/11/0004/1920

हिन्दुस्तान

HINDUSTAN MEDIA VENTURES LIMITED

CIN: L21090BR1918PLC000013

Registered Office: Budh Marg, Patna - 800 001

Ph.: +91 612 222 3434 Fax: +91 612 222 1545

Corporate Office: Hindustan Times House, (2nd Floor)

18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110 001

Ph.: +91 11 6656 1608 Fax: +91 11 6656 1445

E-mail: hmvinvestor@livehindustan.com Website: www.hmv.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that:

1) The Annual General Meeting ('AGM') of the Members of the Company (9th post-IPO) is scheduled to be held on Thursday, the September 19, 2019 at 2.00 P.M. at Hotel Maurya, South Gandhi Maidan, Patna - 800 001, to transact the Ordinary and Special Business set out in the Notice of AGM dated August 20, 2019.

Notice convening the AGM, together with the Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the Annual Report of the Company for FY 2018-19 have been dispatched to the Members of the Company at their registered address by the permitted mode.

The said notice of AGM and Annual Report have been sent via e-mail on August 23, 2019 to the members whose e-mail ID is registered with the Company/Depository Participants(s). However, any member who wishes to have a physical copy of the Notice/Annual Report may write to the Company's RTA at einward.ris@karvy.com.

The dispatch of Notice of AGM and Annual Report has been completed on August 26, 2019. The Notice of AGM and the Annual Report for FY 2018-19 are also available on the company's website viz. www.hmv.in, website of Registrar and Transfer Agent (RTA) viz. <https://evoting.karvy.com> and on websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

2) Pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies Act (Management and Administration) Rules, 2014 ('the Rules'), and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Regulations') the Register of Members of the Company and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, September 12, 2019 to Thursday September 19, 2019 (both days inclusive), to determine the entitlement of Members to the dividend declared at the AGM, if any, for the financial year ended March 31, 2019.

3) In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Rules and Regulation 44 of the SEBI Regulations, the Company is providing, the facility to members to exercise their right to vote by electronic means on the Ordinary and Special Business set out in the Notice of AGM through remote e-voting facility (i.e. facility of casting vote by using an electronic voting system from a place other than the venue of AGM). Karvy Fintech Private Limited ('Karvy') has been engaged by the Company to provide remote e-voting facility. The procedure for remote e-voting has been outlined in the Notice of AGM.

(a) Members of the Company holding shares in physical or dematerialized form, as the case may be, as on the cut-off date i.e. Thursday, September 12, 2019, only are entitled to avail the facility to cast their vote by remote e-voting as well as voting in the AGM.

(b) The remote e-voting facility shall commence from Sunday, September 15, 2019 (9.00 a.m. Server time) up to Wednesday, September 18, 2019 (5.00 p.m. Server time). Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by Karvy. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

(c) Further, the members who have exercised their right to vote through remote e-voting may participate in the AGM, but shall not be allowed to vote again thereafter. If a member casts votes by both modes, then voting done through remote e-voting shall prevail and vote at the AGM shall be treated as invalid.

The Company is also providing facility for voting through polling paper at the venue of AGM, to the members who have not cast their vote by remote e-voting. Any person who acquires shares and becomes a member/beneficial owner of shares of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and is a member/beneficial owner as on the cut-off date i.e. Thursday, September 12, 2019 may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@karvy.com. The detailed procedure for obtaining User ID and Password is also provided in the Notice of AGM which is available on both, the Company's and Karvy's website. However, if a member is already registered with Karvy e-voting platform, he can use his existing User ID and Password for casting the vote through remote e-voting.

In case of any query/grievance regarding remote e-voting, Members may refer to Help & FAQ's section/E-voting user manual available under the "Downloads" section of Karvy's website: <https://evoting.karvy.com> or contact Mr. G. Ramesh Desai, Manager at Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium, Tower B, Plot No. 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032 or on email evoting@karvy.com or phone no. 040-6716 2222 or Karvy's toll free no. 1800-345-4001 (from 8.00 A.M. to 8.00 P.M.).

In terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018, with effect from April 1, 2019 securities of listed companies can be transferred only in dematerialised form (except for transmission or transposition of securities). Accordingly, the Company will not accept any fresh lodgement of transfer of shares in physical form. In view of the same, Members are advised, in their own interest, to dematerialise the shares held by them in physical form.

For Hindustan Media Ventures Limited

Date: August 27, 2019
Place: New Delhi

Sd/
(Tribid Barat)
Company Secretary

व्यवस्थापक अमर साना ना बेनी माधव बख्सा सिंह की 215वीं

लिप्यंकित घंट भर घरे पर बैठे रहें। उन्होंने केंद्र पर हमला बोला।

रहें थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों या परिवारों के

दिल्ली का राण : भाजपा संगठन में

तैयारी

नई दिल्ली। रामनारायण श्रीवास्तव

दिल्ली में पिछले बीस साल से सत्ता से बाहर भाजपा इस बार जीत की बड़ी तैयारी कर रही है। पहले चरण में सदस्यता अभियान से पार्टी को विस्तार दिया जा रहा है।

उसके बाद संगठन चुनावों से लगभग पचास फीसदी नए व युवा नेतृत्व को सामने लाकर चुनावी जंग की तैयारी होगी। दिल्ली में चुनाव अगले साल फरवरी में होने हैं, तब तक भाजपा संगठनात्मक रूप से अपनी रणनीति को

अमलीजामा पहना चुकी होगी। भाजपा ने दिल्ली के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के नेतृत्व में तीन सदस्यीय दल बनाया है। जावड़ेकर के साथ केंद्रीय मंत्री हरीद्वी सिंह पुरी व नित्यानंद राय सह प्रभारी होंगे। सूत्रों के अनुसार, भाजपा नेतृत्व दिल्ली के मौजूदा राजनीतिक हालात को अपने लिए अनुकूल तो मान रहा है, लेकिन विधानसभा में जीत के लिए यह पर्याप्त नहीं है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली व पानी की घोषणाओं की काट खोज पाना अभी बाकी है। राष्ट्रीय मुद्दों पर जनता भाजपा के साथ है और पार्टी इन्हें पर जनता के बीच जाएगी।

जनता में पैठ और

भाजपा का मानना है कि रहे हैं। सूची भीते दो दशक सफलता नहीं दिला सकें को लिया जाएगा। संगठन अनुसार, संगठन की नई जाएगी। पार्टी के एक प्रमुख पर बयानबाजी के बजाए

भाजपा ने इसके लिए जो तैयारी की है उसका सदस्यता अभियान पूरा होने ने हाल के सदस्यता आँ लाख से ज्यादा नए सदस्य की जानकारी) बनाए हैं

शाह का विमान उड़ाने के लिए फर्जी

नई दिल्ली | एजेंसी

कारगिल की जंग में वीरता के लिए पदक पाने वाले पूर्व पायलट जेएस सांगवान फर्जीबाड़े में फंस गए हैं।

सांगवान पर आरोप है कि उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह का विमान उड़ाने की मंशा से पहचान बदली और तथ्यों में हेरफेर किया।

बीएसएफ और दिल्ली पुलिस ने इस पायलट के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। गृहमंत्री का विमान उड़ाने वाली

एक फोन से खुली पोल

एलएंडटी ने सांगवान को जुलाई में चेन्नई-दिल्ली-मुंबई प्लाइट उड़ा अनुमति भी दे दी। मगर सांगवान के चेन्नई रवाना होने से एक दिन प एलएंडटी ने कुछ स्पष्टीकरण के लिए बीएसएफ एयरविंग को फोन दि पता चला कि बीएसएफ ने ऐसी कोई सिफारिश ही नहीं की है।

बीएसएफ एयरविंग ने पाया था कि विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) जेएस सांगवान ने अपने सैनियर की तर्फ से खुद ही लार्सन एंड टूब्रो को इमेल भेजे। इन चिट्ठियों में सांगवान ने खुद की सिफारिश

की और वेरिफिकेशन का अपना नंबर दिया। अप सिफारिश की कि सांगवान उड़ाने दिया जाए। दावा किया सांगवान पायलट-इन-चीफ

केदारनाथ के लिए सितंबर से हेली सेवा शुरू होगी

छद्मप्राण | हंगारे संवाददाता

केदारनाथ धाम के लिए सितंबर पहले सप्ताह से फिर हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसके लिए हेली कंपनियां दिल्ली और अन्य स्थानों से तैयारियों में जुट गई हैं। बताया जा रहा है कि एक सितंबर से हेली कंपनियों के केदारघाटी पहुंच जाएंगी।

गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास अब तक 25 हजार से अधिक तीर्थयात्रियों की ऑनलाइन बुकिंग आ चुकी है। इस साल 9 मई को भगवान धाम के कपाट खुलने के बाद 16 मई

से यहां हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हुईं। पहले चरण में 10 जुलाई तक हेलीकॉप्टर सेवा संचालित होती रही पर बरसात के चलते सेवा बंद कर दी गई। इस दौरान 63047 तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ गए, जबकि 47949 तीर्थयात्री केदारनाथ से वापस आए। 16 मई से 10 जुलाई तक कुल 11340 सटल हुईं।

दूसरे चरण की सेवा के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास अब तक नौ हेली कंपनियों के लिए करीब 25 हजार से अधिक ऑनलाइन बुकिंग आ चुकी है।

तेजस हफते में छह दिन चलेगी गाजियाबाद भी रुकेगी

कानपुर। दिल्ली से लखनऊ वाया कानपुर नवरात्र में प्रस्तावित (सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच) तेजस एक्सप्रेस सप्ताह में छह दिन चलेगी। साथ ही इसका गाजियाबाद स्टेशन पर भी ठहराव दिया गया है।

सप्ताह में किंस दिन यह ट्रेन नहीं चलेगी। इसे लेकर विचार किया जा

रहा है। आईआरसीटीसी के अफसरों ने बताया कि रेलवे ने सिर्फ कानपुर सेंट्रल का स्टॉपेज दिया था पर सर्वे में पता चला कि लखनऊ और दिल्ली आने-जाने वालों का गाजियाबाद से यात्री लोड रहता है। इसी वजह से आईआरसीटीसी ने गाजियाबाद में तेजस ट्रेन के स्टॉपेज की पैरोकारी की थी, जिसे रेलवे ने मान लिया है।

अनुसंधान केंद्रिएर में इच्छुक विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति

देश के विभिन्न भागों में बाह्य परीक्षा 2019 के लिए आवेदनी दी गयी है। अधिक जानकारी के लिए - संयोजक, के.वी.पी

अंशकालिक मेडिकल

सार्वजनिक क्षेत्र के महारत्न उ के अनुसार अपने (क) जुबली (ग) जीटीआई, नोएडा कार्या मेडिकल प्रोफेशनल की आधार

विवरण	शैक्षणिक य
अंशकालिक सामान्य चिकित्सक	एमडी (भिडिसिन) न्यूनतम दो वर्ष मे कार्य अनुभव

प्रत्येक रूप से पूर्ण आवेदन प्र विस्तृत विज्ञापन तथा आवेदन प्र www.gallonline.com के व 2466400/4862400

विज्ञापन संख्या: गेल/ कार्यालय: गेल (इंडिया) लिमि नोएडा-201301

निगमित पहचान सं

हिन्दुस्तान

हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड

सीआईएन: T12090BR1918PLC000013

पंजीकृत कार्यालय: बुद्ध मार्ग, पटना-800 001

फोन: +91 612 222 3434 फैक्स: +91 612 222 1545

कॉर्पोरेट कार्यालय: हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, द्वितीय तल, 18-20, कस्तूरबा गौरी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

फोन: +91 11 6656 1608, फैक्स: +91 11 6656 1445

ई-मेल: hmvinvestor@livehindustan.com वेबसाइट: www.hmvl.in

वार्षिक आम बैठक (AGM) का नोटिस और रिमोट ई-वोटिंग जानकारी

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि :

- कम्पनी के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक ('ए.जी.एम. '), गुरुवार, 19 सितम्बर 2019 को अपराह्न 2.00 बजे होटल मौर्य, साउथ गौरी मैदान, पटना-800 001 में ए.जी.एम. के नोटिस दिनांक 20 अगस्त, 2019 में निर्धारित अनुसार, साधारण और विशेष कारोबार को सम्पादित करने के लिए होगी। ए.जी.एम. को आयोजित करने का नोटिस, साथ में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 ('अधिनियम') के अधीन विवरण और वित्तीय वर्ष 2018-19 की कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट, कम्पनी के सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत्य विधि से प्रेषित कर दी गई है। ए.जी.एम. का कथित नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को 23 अगस्त, 2019 को ई-मेल द्वारा भेजी गयी है, जिन्हें ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में दर्ज है। बहरहाल, कोई भी ऐसा सदस्य जो नोटिस/वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहता है, einward.ris@karvy.com पर कम्पनी के आर.टी.ए. को लिख सकता है। ए.जी.एम. का नोटिस और वार्षिक रिपोर्टों के प्रेषण को 26 अगस्त, 2019 को पूरा कर लिया गया है। ए.जी.एम. का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, कम्पनी की वेबसाइट यानी www.hmvl.in, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आर.टी.ए.) यानी <https://evoting.karvy.com> और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों (www.bseindia.com और www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।
- अधिनियम की धारा 91, साथ में पठित कम्पनी अधिनियम (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 के नियम 10 ('नियमों') और सेबी (सूचीयन, दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमों, 2015 के नियम 42 ('सेबी नियमों') का अनुपालन करते हुए, कम्पनी के सदस्यों की पंजीकृत और शेयर हस्तांतरण बहियों, 31 मार्च, 2019 के समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु, ए.जी.एम. में घोषित किए गए लाजोंश, यदि कोई होता है, के लिए सदस्यों को हस्तक्षेप सुनिश्चित करने हेतु, गुरुवार, 12 सितम्बर, 2019 से गुरुवार, 19 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे।
- अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों, साथ में पठित नियमों के नियम 20 और सेबी नियमों के नियम 44 का अनुपालन करते हुए, कम्पनी अपने सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (यानी ए.जी.एम. के स्थान के अलावा अन्य स्थान से किसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हुए वोट डालने की सुविधा) के माध्यम से ए.जी.एम. के नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष कारोबार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कार्वाँ फिन्टेक प्राइवेट लिमिटेड ('कार्वाँ') को कम्पनी द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया ए.जी.एम. के नोटिस में वर्णित की गई है। (क) कम्पनी के वे सदस्य जिन्हें पास भौतिक या डिमैट स्वरूप में शेयर हैं, जैसा भी हो, कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 12 सितम्बर, 2019 को रिमोट ई-वोटिंग साध्य ही साध्य ए.जी.एम. में वोटिंग द्वारा अपना वोट देने की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार हैं। (ख) रिमोट ई-वोटिंग सुविधा रविवार, 15 सितम्बर 2019 (प्रातः 9.00 बजे सर्वर समय) से शुरू होकर बुधवार, 18 सितम्बर 2019 (प्रातः 5.00 बजे सर्वर समय) तक होगी। उसके बाद, कार्वाँ द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल नियमित कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट दे दिया जाता है, तो बाद में वे सदस्य उसमें परिवर्तन करने हेतु अनुमत्य नहीं होंगे। (ग) इसके अलावा, वे सदस्य जो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट देकर अपने अधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, ए.जी.एम. में उपस्थित हो सकते हैं, किन्तु उस जगह दोबारा वोट देने के लिए वे अनुमत्य नहीं होंगे। यदि कोई सदस्य दोनों विधियों में वोट करता है तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किया गया वोट ही मान्य होगा और एजीएम में किया गया वोट अवेध माना जाएगा।

कम्पनी उन सदस्यों को ए.जी.एम. के स्थल पर उपलब्ध मतपत्र के जरिए वोट देने की सुविधा भी प्रदान कर रही है, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास शेयर हैं और बैठक के नोटिस के प्रेषण के बाद कम्पनी के शेयरों का सदस्य/बेनिफिशियल ओनर बनता है और कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 12 सितम्बर 2019 को सदस्य/बेनिफिशियल ओनर है, evoting@karvy.com में अपना अनुरोध भेजकर यूर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यूर आईडी और पासवर्ड को प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया, ए.जी.एम. के नोटिस में भी प्रदान की गई है, जो कम्पनी की तथा कार्वाँ की वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध है। हालांकि, यदि कोई सदस्य पहले ही कार्वाँ ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म में पंजीकृत है तो वह रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट देने के लिए अपने मौजूदा यूर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। यदि रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में कोई भी प्रश्न/शिकायत है, तो सदस्य कृपया कार्वाँ की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> के Help & FAQ's सेक्शन / 'Downloads' सेक्शन में उपलब्ध ई-वोटिंग यूर मैनुअल पर जा सकते हैं या श्री जी. रंजेश देसाई, प्रबंधक से कार्वाँ फिन्टेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वाँ सेलेनियम, टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, फाइनेशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाकमगुडा, सेरिलिंगपत्तन्ले मंडल, हैदराबाद-500 032 में या ई-मेल यानी: evoting@karvy.com या सम्पर्क नं.: 040-6716 2222 या कार्वाँ के टॉल फ्री नं.: 1800-345-4001 (प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक) पर सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) (चतुर्थ संशोधन) नियमों, 2018 के अनुसार, सूचीयक कम्पनी को प्रति प्रतिष्ठानों को केवल डिमैट स्वरूप में हस्तांतरण किया जा सकता है (प्रति प्रतिष्ठानों के संघानुया या रूपांतरण को छोड़कर)। तदनुसार, कम्पनी भौतिक स्वरूप में शेयरों के हस्तांतरण के किसी नए प्रस्तुतीकरण को स्वीकार नहीं करेगी। इसे देखते हुए, सदस्यों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि भौतिक स्वरूप में उनके द्वारा धारित शेयरों को डिमैट करवा लें।

कृते हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड

दिनांक: 27 अगस्त, 2019
स्थान: नई दिल्ली

ह/०- (त्रिविध बरत) कम्पनी अध्यक्ष



ership by expressing dissent publicly. This is very different from a decade ago when legislators held the party and government to ransom to get what they wanted.

There is a lot of discontent about the decision to name C.N. Ashwathnarayan and Laxman Savadi as two of the three deputy chief ministers. Ashwathnarayan is a first-time minister. Savadi lost

SC lets portal withdraw plea in case filed by Amit Shah's son

PTI
feedback@livemint.com
NEW DELHI

The Supreme Court on Tuesday allowed *The Wire*, a newsportal, and its scribes, to withdraw their appeal challenging a Gujarat high court order in the defamation case filed by Union home minister Amit Shah's son Jay Shah for publishing a news report on his business activities.

The apex court also said that the trial against the news portal will be expeditiously completed by the competent court.

Though the bench headed by Justice Arun Mishra allowed the withdrawal of appeals pending in the apex court for around one-and-a-half years, it expressed anguish over the way journalism was being practised in the country.

Responding to senior counsel Kapil Sibal, appearing for *The Wire*, the bench also comprising justices M.R. Shah and B.R. Gavai said it has become a fashion to serve a notice and then even before it can be answered, articles are published within five to six hours.

The Wire issued a press statement: "Circumstances have arisen as per which we believe it is best if we make use of the opportunity to justify everything we have stated in our article at the trial. We are therefore withdrawing. We believe the fight for media freedom will have to be advanced at all levels. Our article was factual, based not only on records, but on facts admitted by Jay Amit Shah. Though it is still very much our belief that neither a criminal case nor an injunction is legally justifiable, we intend to face trial in Gujarat, secure in the knowledge that constitutionally mandated rights of the media will eventually prevail."

HK

Shashton
shasw has
NEW peo-
cross
state

A Allah
bund

minbeen
of hafety
ceed other
tivel

Kashnees,
set to Hur-

W been
graypet to
mur will be
head cited

Artieporters
Centvenas

ing fignly
wheat ion is

takeation
terredic-
mir, l sup-

Ts been
Jamith the

a liehem as

107-
will

Ces

Anu
anuja
NEW

ref min-
the unit
kshit's

expose
party's
p to the

Son,
polls
will forearly

ism Gandhi
and o walk a

Delnces the
was kshit's

There thro
working
mers in the

comt of the
enob. The
rebooking to

Ffull-time
eshyn and a
Jhar Tuesday

Mon issue.
pos will only

puenced if
the fac-

elects as the
lead ver in any

हिन्दुस्तान

HINDUSTAN MEDIA VENTURES LIMITED

CIN: L21090BR1918PLC000013

Registered Office: Budh Marg, Patna - 800 001

Ph.: +91 812 222 3434 Fax: +91 612 222 1545

Corporate Office: Hindustan Times House, (2nd Floor)

18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110 001

Ph.: +91 11 6656 1608 Fax: +91 11 6656 1445

E-mail: hmvlinvestor@livehindustan.com Website: www.hmvl.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that:

1) The Annual General Meeting ('AGM') of the Members of the Company (9th post - IPO) is scheduled to be held on Thursday, the September 19, 2019 at 2.00 P.M. at **Hotel Maurya, South Gandhi Maldan, Patna - 800 001**, to transact the Ordinary and Special Business set out in the Notice of AGM dated August 20, 2019.

Notice convening the AGM, together with the Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the Annual Report of the Company for FY 2018-19 have been dispatched to the Members of the Company at their registered address by the permitted mode.

The said notice of AGM and Annual Report have been sent via e-mail on August 23, 2019 to the members whose e-mail ID is registered with the Company/Depository Participant(s). However, any member who wishes to have a physical copy of the Notice/Annual Report may write to the Company's RTA at einward.ris@karvy.com.

The dispatch of Notice of AGM and Annual Report has been completed on August 26, 2019. The Notice of AGM and the Annual Report for FY 2018-19 are also available on the company's website viz. www.hmvl.in, website of Registrar and Transfer Agent (RTA) viz. <https://evoting.karvy.com> and on websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

2) Pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies Act (Management and Administration) Rules, 2014 ('the Rules'), and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Regulations') the Register of Members of the Company and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, September 12, 2019 to Thursday September 19, 2019 (both days inclusive), to determine the entitlement of Members to the dividend declared at the AGM, if any, for the financial year ended March 31, 2019.

3) In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Rules and Regulation 44 of the SEBI Regulations, the Company is providing, the facility to members to exercise their right to vote by electronic means on the Ordinary and Special Business set out in the Notice of AGM through remote e-voting facility (i.e. facility of casting vote by using an electronic voting system from a place other than the venue of AGM). Karvy Fintech Private Limited ('Karvy') has been engaged by the Company to provide remote e-voting facility. The procedure for remote e-voting has been outlined in the Notice of AGM.

(a) Members of the Company holding shares in physical or dematerialized form, as the case may be, as on the cut-off date i.e. Thursday, September 12, 2019, only are entitled to avail the facility to cast their vote by remote e-voting as well as voting in the AGM.

(b) The remote e-voting facility shall commence from Sunday, September 15, 2019 (9.00 a.m. Server time) up to Wednesday, September 18, 2019 (5.00 p.m. Server time). Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by Karvy. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

(c) Further, the members who have exercised their right to vote through remote e-voting may participate in the AGM, but shall not be allowed to vote again thereat. If a member casts votes by both modes, then voting done through remote e-voting shall prevail and vote at the AGM shall be treated as invalid.

The Company is also providing facility for voting through polling paper at the venue of AGM, to the members who have not cast their vote by remote e-voting. Any person who acquires shares and becomes a member/beneficial owner of shares of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and is a member/beneficial owner as on the cut-off date i.e. Thursday, September 12, 2019 may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@karvy.com. The detailed procedure for obtaining User Id and Password is also provided in the Notice of AGM which is available on both, the Company's and Karvy's website. However, if a member is already registered with Karvy e-voting platform, he can use his existing User Id and Password for casting the vote through remote e-voting.

In case of any query/grievance regarding remote e-voting, Members may refer to Help & FAQ's section/E-voting user manual available under the "Downloads" section of Karvy's website: <https://evoting.karvy.com> or contact Mr. G. Ramesh Desai, Manager at Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium, Tower B, Plot No. 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032 or on email evoting@karvy.com or phone no. 040-6716 2222 or Karvy's toll free no. 1800-345-4001 (from 8.00 A.M. to 8.00 P.M.).

In terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018, with effect from April 1, 2019 securities of listed companies can be transferred only in dematerialised form (except for transmission or transposition of securities). Accordingly, the Company will not accept any fresh lodgement of transfer of shares in physical form. In view of the same, Members are advised, in their own interest, to dematerialise the shares held by them in physical form.

For Hindustan Media Ventures Limited

Sd/-

(Tridib Barat)

Company Secretary

Date: August 27, 2019

Place: New Delhi